

8. a) Discuss multicore processor in detail.
मल्टीकोर प्रोसेसर की विस्तार से चर्चा कीजिए।
- b) Write short notes on following:
 i) Semiconductor memories
 ii) Hardwired control unit
 iii) RISC and CISC
 iv) Micro instruction formats
निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें।
 i) सेमीकंडक्टर यादें
 ii) हार्डवेयर्ड कंट्रोल यूनिट
 iii) RISC और CISC
 iv) सूक्ष्म अनुदेश प्रारूप

Roll No.

AL/CSIT (CI)/CS/CT/CO/IO/IS-404 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, June 2023

Grading System (GS)**Computer Organization & Architecture***Time : Three Hours***Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain basic principles of computer architecture.
कम्प्यूटर आर्किटेक्चर के बुनियादी सिद्धांतों की व्याख्या करें।
- b) What is Multiprocessing? Discuss types of data transfer in detail.
मल्टीप्रोसेसिंग क्या है? डाटा ट्रांसफर के प्रकारों की विस्तार से चर्चा करें।
2. a) Explain the following terms
 - i) Stack organization
 - ii) Bus structure and addressing modes
 - iii) Fetch and execution cycle

- निम्नलिखित शर्तों की व्याख्या करें।
- देर संगठन
 - बस संरचना और एड्रेसिंग मोड
 - लाने और निष्पादन चक्र
- b) Discuss instruction types and explain execution of micro instruction.
निर्देश प्रकारों पर चर्चा करें और सूक्ष्म निर्देश के निष्पादन की व्याख्या करें।
3. a) Write Booth's algorithm. Also explain floating point arithmetic operation.
दूथ एल्गोरिथम लिखें। फ्लोटिंग पॉइंट अंकगणितीय ऑपरेशन को भी समझाइए।
- b) Describe signal addition and subtraction in detail.
सिग्नल जोड़ और घटाव का विस्तार से वर्णन कीजिए।
4. a) Elaborate following with examples:
- Serial and parallel data transfer
 - Synchronous and asynchronous modes of data transfer
- उदाहरणों के साथ निम्नलिखित को विस्तृत करें।
- सीरियल और पैरेलल डाटा ट्रांसफर
 - डाटा ट्रांसफर के सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड
- b) Write notes on following:
- Direct memory access
 - PCI Bus and SCSI Bus
- निम्नलिखित पर नोट्स लिखें।
- डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस
 - PCI बस और SCSI बस

5. a) Compare following
- Main memory and secondary memory
 - Cache memory and Virtual memory
- निम्नलिखित की तुलना करें।
- मैन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी
 - कैच मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी
- b) Describe replacement algorithm and write steps to improve cache performance.
प्रतिस्थापन एल्गोरिथम का वर्णन करें और कैश प्रदर्शन में सुधार के लिए चरण लिखें।
6. a) Explain characteristics and structure of multiprocessor.
मल्टीप्रोसेसर की विशेषताओं और संरचना की व्याख्या करें।
- b) What is concept of pipelining? Differentiate vector processing and array processing.
पाइप लाइनिंग की अवधारणा क्या है? वेक्टर प्रोसेसिंग और एरे प्रोसेसिंग में अंतर करें।
7. a) Describe following in brief
- LRU algorithm
 - Tools compliment representation
 - Memory management hardware
- निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- LRU एल्गोरिथम
 - उपकरण पूरक प्रतिनिधित्व
 - मेमोरी प्रबंधन हार्डवेयर
- b) What is inter-processor communication and synchronization? Also describe inter-processor arbitration.
इंटर-प्रोसेसर संचार और सिंक्रनाइजेशन क्या है? इंटर-प्रोसेसर मध्यस्थता का भी वर्णन करें।